

जन्मे हैं लल्ला | by Varsha Shrivastava

आयो संदेसा यशोदा के घर में
जन्मे हैं लल्ला हो
जन्मे हैं लल्ला हो जन्मे हैं लल्ला
झूम उठे नन्द जी खुशी की लहर में
जन्मे हैं लल्ला हो

चंदा से प्यारा है फूलों सा कोमल
मैया छुपाती है डाल के आँचल
आये ना बिटवा किसी के नज़र में
जन्मे हैं लल्ला हो

शहनाई बाजे मृदंग भी बाजे
घर घर रंगोली और दीपक हैं साजे
जोश बड़ा गोकुल की नारी और नर में
जन्मे हैं लल्ला हो

लड्डू बताशे का ढेर लगा कर
हलवा इमारति के थाल सजा कर
बाबा ने न्योता है सबको नगर में
जन्मे हैं लल्ला हो

विष्णु के अवतारी कृष्ण मुरारी
मुरलीधर गिरधारी रास बिहारी
बालक बन आये हैं सबकी नज़र में
जन्मे हैं लल्ला हो

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be-by-varsha-shrivastava/>